

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 33]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 9, 1973/माघ 20, 1894

No. 33]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 9, 1973/MAGHA 20, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 9th February 1973.

SUBJECT.—*Import Policy for Registered Exporters for the year April 1972-March 1973 (Amendment No. 47).*

No. 21-ITC (PN)/73.—Attention is invited to the Import Policy for Registered Exporters contained in the Import Trade Control Policy (Red Book) Vol. II for the period April 1972-March 1973, issued under the late Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 47-ITC(PN)/72, dated 3-4-1972.

2. The following amendments may be made at the appropriate places as indicated below:—

Page No. of the Policy Book, Vol. II	Reference	Amendments
III	C. 25	The existing entries (c) and (j) may be amended to read as under:—
	Col. 4	“(c) Polystyrene”.
		“(j) Aluminium foil (coloured)”.
I 0	Q. 2.1	The existing entry (a) may be amended to read as under:—
	Col. 4	“(a) Stainless steel sheets and strips of both 0.914 mm to 0.457 mm inclusive (1.33 Kg.).”
100	Q. 2.2	The existing entry (a) may be amended to read as under:—
	Col. 4	“(a) Stainless steel sheets and strips of 0.914 mm to 0.457 mm both inclusive (1.33 Kg.).”
101	Q. 6	The existing entry (a) may be amended to read as under:—
	Col. 4	“(a) Stainless steel sheets and strips of 0.914 mm to 0.457 mm both inclusive (1.33 Kg.).”

3. The following items are classifiable under the product Groups mentioned below and fall under the serial numbers shown against each:—

A. ENGINEERING GOODS

1. Aluminium wall brackets. A. 61·2
2. Antifriction white metal bearings (lead based) A. 66·2
3. Crank cotter pin along with flat washer and nut. A. 152·2
(Note : This amendment is applicable in respect of exports made from 1-4-1972).
4. Water thermostat. A. 136·3.

C. PLASTICS

Mechanical toys made of PVC. C. 51.

4. The items mentioned in para 3 above may be inserted alphabetically at the appropriate places in the Index of the above Red Book under the relevant product groups.

5. The following amendments may be made in the Index of the above Red Book:—

- (i) The entry "Cotter pins for bicycle" appearing on page vii of the Index may be amended to read as "Cotter pins."
- (ii) The entry "Crank cotter pins" appearing on page vii of the Index may be amended to read as "Crank cotter pins for bicycles."
- (iii) The entry "Tin toys A. 25" appearing on page xxiii of the Index may be amended to read as "Tin toys, mechanical/battery operated. A. 50.1".
- (iv) The entry "Mechanical battery operated toys (made of polystyrene, polythelene and polypropylene. C. 29" appearing on page xxx of the Index may be amended to read as "Mechanical/battery operated toys [made of polystyrene, polythelene and polypropylene. C. 29.1(B)]."
- (v) The entry "Plastic toy whistles [of poly-styrene. C. 29.1(B)]" appearing on page xxxi of the Index may be deleted.

6. The items "Motor cycle spokes and nipples and also bicycle spokes with nipples and washers were classified under S. No. A. 136.3, vide Public Notice No. 167-ITC(PN)/72, dated 23-11-72. It has now been decided to amend the classification of the above items as under:—

- (a) Motorcycle spokes and nipples A. 136·3.
- (b) Bicycles spokes with nipples and washers. 152·2.

The existing entries may accordingly be modified and inserted at the appropriate places of the Index.

K. S. NARANG.

CHIEF CONTROLLER OF IMPORTS AND EXPORTS

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 1973

विषय:—अप्रैल-1972-मार्च, 1973 वर्ष के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति (संशोधन सं० 47)

संख्या : 21-प्र ई टी सी (पीएन)/73 गत विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं० 47—आईटीसी (पीएन)/72, दिनांक 3-4-72 के अन्तर्गत अप्रैल, 1972 --मार्च, 1973 वर्ष के लिए जारी की गई आयात व्यापार नियंत्रण नीति पुस्तक (रेड बुक) के वा० 2 में पंजीकृत निर्यातकों के लिए निहित आयात नीति की शीघ्र ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2. निम्नलिखित संशोधन नीचे निर्दिष्टानुसार उपयुक्त स्थानों पर किए जाएं :—

रेड बुक (वा० 2) की पृष्ठ सं०	संदर्भ	संशोधन
111	सी० 25 ----- कालम 4	वर्तमान प्रविष्टि (सी) तथा (जे) को संशोधित कर इस प्रकार पढ़ा जाए :— “(सी) पालिस्ट्रीन “(जे) एल्युमीनियम फायल (रंगीन)”
160	क्यू० 2.1 ----- कालम 4	वर्तमान प्रविष्टि (ए) को संशोधित कर इस प्रकार पढ़ा जाए :— “(ए) (1.11 कि० ग्राम) सहित 0.914 एम एम से 0.457 एम एम तक दोनों की जंग विरोधी इस्पात चदरें तथा पट्टियां”
160	क्यू० 2.2 ----- कालम 4	वर्तमान प्रविष्टि (ए) को संशोधित कर इस प्रकार पढ़ा जाए :— “(ए) (1.33 कि० ग्रा०) सहित 0.914 एम एम से 0.457 एम एम तक दोनों की जंग विरोधी चदरें तथा पट्टियां।”
161	क्यू० 6 ----- कालम 4	वर्तमान प्रविष्टि (ए) को संशोधित कर इस प्रकार पढ़ा जाए :— “(ए) (1.33 कि० ग्रा०) सहित 0.914 एम एम से 0.457 एम एम तक दोनों की जंग विरोधी इस्पात चदरें तथा पट्टियां”

3. निम्नलिखित मदें नीचे दिए गए उत्पाद वर्गों के अन्तर्गत वर्गीकरणीय हैं और प्रत्येक के सामने दिखाई गई क्रम सं० के अन्तर्गत आती हैं —

ए. अभियांत्रिक माल

1. एल्युमीनियम से बनी हुई दीवार ब्रैकिटे ए. 61.2
2. एण्टीफ्रिक्शन सफेद धातु—वियरिंग (लैंड बेम वाले) ए. 66.2
3. फ्लैट वाशर तथा नट के साथ क्रेस्क काटर पिन ए. 152.2

टिप्पणी—उक्त संशोधन 1-4-1972 से किए गए नियमितों के लिए लागू है।

4. वाटर थर्मोस्टेट ए. 136.3

सी. प्लास्टिक

पी० बी० सी० से बने हुए यंत्र चालित खिलौने सी. 51

4. उपर्युक्त कंडिका 3 में उल्लिखित मदों को उपर्युक्त रेड बुक के सूचक के सम्बद्ध उत्पाद वर्ग के अन्तर्गत उपयुक्त स्थानों पर वर्णक्रमानुसार निविष्ट किया जाए।

5. उपर्युक्त रैंड बूक के सूचक में निम्नलिखित संशोधन किए जाए :—

- (i) सूचक की पृष्ठ सं० 7 पर दिखाई गई प्रविष्टि “साइकिल के लिए फ्रेन्क काटर पिनी” को संशोधित कर “काटर पिनी” के रूप में पढ़ा जाए।
- (ii) सूचक की पृष्ठ सं० 7 पर दिखाई गई प्रविष्टि “फ्रेन्क काटर पिनी” को संशोधित कर “साइकिलों के लिए फ्रेन्क काटर पिनी” के रूप में पढ़ा जाए।
- (iii) सूचक की पृष्ठ सं० 23 पर दिखाई गई प्रविष्टि “टिन के खिलौने . . . ए० 25” को संशोधित कर “टिन के खिलौने यंत्र चालित बैट्री से चालित” के रूप में पढ़ा जाए।
- (iv) सूचक की पृष्ठ सं० 30 पर दिखाई गई प्रविष्टि “यांत्रिक बैट्री से चालित खिलौने (पालिस्ट्रीन पोलिथिलीन तथा पोलिप्रोफीलीन सी० 29 से बने हुए)” को संशोधित कर “यंत्र चालित/बैट्री से चालित खिलौने (पालिस्ट्रीन पोलिथिलीन तथा पोलिप्रोफीलीन सी० 29.1 (बी) से बने हुए)” के रूप में पढ़ा जाए।
- (v) सूचक की पृष्ठ सं० 31 पर दिखाई गई प्रविष्टि “सीटी देने वाले प्लास्टिक खिलौने” (पालिस्ट्रीन सी० 29.1 (बी) को हटाया जाए।

6. मर्दे “मोटर साइकिल स्पोक्स तथा निप्पल्स और निप्पल्स तथा वाशर के साथ साइकिल स्पोक्स की क्रम सं० ए० 136.3 के अन्तर्गत वर्गीकृत की गई थी, देखिये सार्वजनिक सूचना सं० 167-आई टी सी (पी एन)/72, दिनांक 23-11-72। अब यह निश्चय किया गया है कि उपर्युक्त मर्दों के वर्गीकरण को इस प्रकार संशोधित किया जाए :—

- | | |
|--|----------|
| (ए) मोटर साइकिल स्पोक्स तथा निप्पल्स | ए० 136.3 |
| (बी) निप्पल्स तथा वाशर के साथ | ए० 152.2 |
- मोटर साइकिल स्पोक्स

तदनुसार, वर्तमान प्रविष्टियों को संशोधित किया जाए तथा सूचक में उपयुक्त स्थानों पर निश्चित किया जाए।

के एम० नारंग,
मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात।